ADHBHUT INFRASTRUÇTURE LIMITED

Registered Office:

DSC 260 South Court, DLF Saket, New Delhi-110017

Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503DL1985PLC020195

Ref.No.: AIL/BSE/04/2023-24

Date: 09th April, 2023

To
The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejee bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Security Code No.: 539189

Dear Sir/Madam

Sub.: Newspaper publication of Postal Ballot Notice

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclosed herewith the Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice (including instruction for remote e-voting) published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on 09th April, 2023.

A copy of the advertisement is also available on the website of the Company i.e. www.adhbhutinfra.in

Request you to kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours sincerely

For Adhubhut Infrstructure Limited

Anubhav Dham

Digitally signed by Anubhav Dham Date: 2023.04.07 13:07:18 +05'30'

Anubhav Dham

Whole Time Director

DIN: 02656812 Encl.: As above SUNDAY, APRIL 9, 2023

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SECURITY COMPASS CONSULTING & TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED

Sr.No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name Of Corporate Person	Security Compass Consulting & Training Services Private Limited
2.	Date Of Incorporation Of Corporate Person	December 21, 2010
3.	Authority Under Which Corporate Person Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies - Delhi
4.	Corporate Identity Number / Limited Liability Identity Number Of Corporate Person	U72900DL2010FTC358109
5.	Address Of The Registered Office And Principal Office (If Any) Of Corporate Person	Shop No. 216/9, Bhikaji Cama Place New Delhi 110066
6.	Liquidation Commencement Date Of Corporate Person	April 6, 2023
7.	Name, Address, Email Address, Telephone Number And The Registration Number Of The Liquidator	Name: Dhanshyam Patel Address: 322, Zest Business Spaces, MG Road, Ghatkopar East, Mumbai 400 077 Email -liq.scctspl@gmail.com/dpatel@ckpatel.com Phone - 022-25083300 Reg No - IBBI/IPA-001/IP-P01373/2018-19/12155
8.	Last Date For Submission Of Claims	May 6, 2023

Limited has commenced voluntary liquidation on 6th April 2023 The stakeholders of Security Compass Consulting & Training Services Private Limited are

hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 6th May 2023, to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of the Liquidator: Dhanshyam Patel

Place: Mumbai Date: Saturday, April 8, 2023



POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Loan	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/	Amount & Date of	Possession
Account No.	Legal Representative(s)	Demand Notice	Date
	Mrs. Renu Dhondiyal (as Borrower) and Mr. Denis Alias Mr. Denis Dhondiyal (as Co-Borrower)	Rs. 24,09,446/- (Rupees Twenty Four Lakh Nine Thousand Four Hundred Forty Six Only)	04-04-2023

Description of the Secured Assets / Immovable Properties/Mortgaged Properties: All Piece & Parcels of Residential LHS Southern Eastern Side Flat on Third Floor, with Roof/Terrace rights, Area admeasuring 72.5 Sq. Yards i. e. 60.62 Sq. Mtrs, Out of property bearing No. B-51-A & 50-B, Along with proportionate undivided, individual and impartia ownership rights of the underneath land admeasuring 72.5 Sq. Yards i. e. 60.62 Sq. Mtrs. With one two wheeler parking on stilt floor, Out of Khasra No. 23/24, Situated in Village Dabri, Delhi State, Colony known as Dabri Extension, New Delhi-110045, with all common amenities mentioned in sale deed. Boundaries- East: Road 20 wide. West: Others property/remaining portion of Plot no 51, North: Remaining portion of said property, **South:** Others property/remaining portion of Plot no 50-A.

DATE :- 09-04-2023. Sd/- Authorised Officer PLACE :- DELHI/NCR For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L51503DL1985PLC020195

Website: www.adhbhutinfra.in

Registered Office: DSC 260 South Court, DLF Saket New Delhi South Delhi DL 11001 Phone: +91-7048959386; E-mail: adhbhut.ind@rediffmail.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that Company is seeking approval of the members by way of special resolution through Postal Ballot for shifting its registered office from the NCT of Delhi to the State of Haryana. In terms of 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2), as amended and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meeting/conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 2/2022 and 3/2022 dated May 5, 2022, General Circular No 10/2022 dated December 28, 2022 & General Circular No 11/2022 dated December 28, and other applicable laws, regulations, circulars, notifications (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act on April 08th, 2023 by e-mail to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") as on the cut-off date March 31st, 2023.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.adhbhutinfra.in and on website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of Central Depository Service Limited ("CDSL"), the agency for providing e-voting facility, at www.evotingindia.com. Members who did not receive the Postal Ballot Notice may download it from the

The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an email to the Company at adhbhut.ind@rediffmail.com.

Instructions for e-voting:

In accordance with the MCA Circulars, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on the resolution proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means ("a-voting"). The communication of the assent or dissent of the members would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned herein below:

Commencement of e-voting: 09:00 a.m. (IST) on Sunday, 09th April, 2023. End of e-voting: 05:00 p.m. (IST) on Monday, 08th May, 2023.

E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period.

Manner of e-voting by members holding shares in dematerialised modes, physical modes and members who have not registered their e-mail address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner in which persons who have forgotten the user id and password, can obtain/ generate the same, has also been provided in the said Notice. Please read carefully the instructions and information relating to e-voting, furnished in the Postal Ballot Notice, before exercising the vote through e-voting.

A person whose name is recorded in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on the cut-off date shall only be considered eligible for the purpose of e-voting. Voting rights of member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date. A person who becomes a member after the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Manner of registering/updating e-mail address: a. Members who hold the shares in physical mode and have not registered / updated their

e-mail address with the Company, can register / update the same by giving details of folio number, e-mail address and self-attested copy of PAN card to the Registrar and Transfer Agents (RTA) of the Company, M/s Beetal Financial & Computer Services Private Limited, BEETAL House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Complex, New Delhi 110062 Tel: 91-11-2996 1281-83, e-mail: beetal@beetalfinancial.com.

b. Members holding shares in dematerialised mode and have not registered/ updated their e-mail address, can register/ update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of evoting i.e. 08th May, 2023. The results of e-voting will be announced on or before 11th May, 2023 and will be displayed on the Company's website at www.adhbhutinfra.in, website of the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. By order of the Board of Directors

For Adhbhut Infrastructure Limited

Anubhav Dham (Whole Time Director)

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF M/S MAHARASHTRA SCOOTERS LIMITED

Notice is hereby given that the share Certificate nos. 4453 26512, 42828, 111436-37, 225224-27, for 35, 15, 50, 100, 200 total 400 shares Distinctive No. From 673436, 1213713, 2128804, 4092583, 8365385 TO 673470, 1213727, 2128853, 4092682, 8365584 standing in the name(s) of Nawal Kishor Koolwal in the books of M/s Maharashtra Scooters Limited has/have been lost/ misplaced/ destroyed and the advertiser has/ have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof. Any person(s) who has /have claim (s) on the said shares should lodge such claim(s) with the company's registrars and transfer agents viz Kfin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No: 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares. Name (s) of the shareholder(s) Nawal Kishor Koolwal Date: 08.04.2023

CORRIGENDUM

Attention required of the General Public towards the FORM-B PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process), Regulations, 2016 published in this newspaper on 07.04.2023 in the matter of ADI AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED (CORPORATE DEBTOR) Please note that in Sr. No.10 of Public Announcement, the Email ID for Correspondence with

the Liquidator is misprinted. The Correct Email id for Correspondence (at Sr. No. 10) is Other details and terms & conditions remain unaffected & unchanged.

Sanjay Kumar Dewani Liquidator In the matter of ADI Automotives Private Limited Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P00423/2017-18/10746 AFA valid up to 02.01.2024



STATE BANK OF INDIA, Stressed Assets Recovery Branch – II (51521)

3rd & 4th floor, State Bank House, 18/4, Arya Smaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005, Tel. 011-28752163 Fax. 28755674, e-mail : sbi.51521@sbi.co.in

"APPENDIX-IV-A" (See proviso to rule 8 (6)) SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES **NOTICE FOR E-AUCTION DATED 25.04.2023**

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to rule 8 (6) of the security interest (Enforcement Rules, 2002).

The Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor) has taken over possession (symbolic/physical) of the following property/ies u/s 13(4) of the SARFAESI Act. Public at large and borrowers, mortgagors and guarantors in particular are informed that e-Auction (under SARFAESI Act, 2002). of the charged property/ies in the below mentioned cases for realization of Bank's dues will be held on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on 25.04.2023, for recovery of the amount mentioned below due to the Secured Creditor from the Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The Reserve Price and earnest money to be deposited have been mentioned below.

Date / Time of visit to the property for inspection: 21.04.2023 from 11:00 am to 03:00 pm.

Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and up-dation of such information in the e-auction website This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem

Date/time of E-auction on 25.04.2023 for 4 Hours from 11:00 am to 03:00 pm with unlimited extn. of 10 min each.

Sr. Name of the Borrower(s) / for Recovery No. Guarantor(s) which Propert		Outstanding Dues for Recovery of which Property/ies is/are being Sold	Description of property/ies & Name of Title Deed Holder	Reserve Price (Rs.) (below which property could not be sold.) Earnest Money (EMD) 10% of the Reserve Price Bid Increment Amount	Name of the Contact Person	
1	M/s Devanshi Exports Pvt. Ltd., H. No. 132, Vir Nagar, Jain Colony, New Delhi – 110007, Mr. Sameer Jain & Mrs. Subhashini Jain, Both R/o - 132, Vir Nagar, Jain Colony, New Delhi - 110007	Eight crore forty four lac sixty six thousand two hundred seven and paisa eighty six only) as on	Equitable Mortgage of Residential Property No. 132A (Eastern Side Build up Portion of Plot No. 132), Sadhora Kalan, Veer Nagar, Jain Colony, Delhi- 110007 admeasuring 115.25 sq yds (Physical Possession with the Bank)	₹ 360.00 Lacs ₹ 36.00 Lacs ₹ 1.00 Lac	Sh. Dheeraj Kumar (M-9560205656) Sh. D. S. Bisht (M-9971846693)	
2	M/s Neeraj Sales Private Limited, A-1/17, Mohan Garden, Delhi-110059. 1. Mr. Pankaj Anand S/o Late Sh. M. C. Anand, 2. Mrs. Subhash Anand W/o Late Sh. M. C. Anand, 3. Mrs. Poonam Anand W/o Pankaj Anand, All are R/o A-1/17, Mohan Garden, Delhi-110059 4. Mr. Amit Anand S/o Sh. K. G. Anand R/o 11/38 B, Tilak Nagar, New Delhi-110018.	interest and charges	Residential Building bearing Survey Number: 746 & 756, situated at Entire Property bearing no A1/17, out of Khasra No 743 & 756 situated in VillNawada, Mohan Garden, New Delhi, New Delhi, 110059, (Urban), in the name of Mrs. Subhash Anand W/o Late Sh. M. C. Anand, Admeasuring Total Area: 200 sq yds (Physical Possession with the Bank)	≠ 26 00 Lacs	Sh. Dheeraj Kumar (M-9560205656) Sh. D. S. Bisht (M-9971846693)	
3	M/s Anand Agencies, A-1/17, Mohan Garden, Delhi -110059.	Lacs Ninety Thousand Five	Residential property situated at plot no- C-2/311, free hold entire 2nd Floor, without roof rights, Janakpuri, , New Delhi - 110058, admeasuring Total Area: 2017.82 Sq. Ft. in the name of Smt. Subhash Anand W/o Late Shri M. C. Anand (Physical Possession with the Bank)	₹ 355.00 Lacs ₹ 35.50 Lacs ₹ 1.00 Lac	Sh. Dheeraj Kumar (M-9560205656) Sh. D. S. Bisht (M-9971846693)	
4	M/s Digital Integrated Technologies Pvt Ltd Flat No. 92-C, Block-D 4, Udhyog Vihar, Sector-82, Noida Distt. G B Nagar, UP 201304 M/s S 3 Sun Synergy Pvt Ltd, Plot No. 110, Gyan Khand-1, Indirapuram,	(as on 06.08.2021) plus future interest and charges	Free hold property situated at Pocket-F, Behind EDM Mall, Kaushambi, Tehsil & Distt. Ghaziabad in the name of M/s S 3 Sun Synergy Pvt Ltd measuring 854.36 Sq Mtrs. (Physical Possession with the Bank)	₹ 752.00 Lacs ₹ 75.20 Lacs ₹ 1.00 Lac	Sh. Dheeraj Kumar (M-9560205656) Sh. D. S. Bisht (M-9971846693)	
	Ghaziabad UP-201010		Residential lease hold property bearing flat no. 92 C, second Floor at Udyog Vihar Block-D4 Sector 82 Noida measuring 54.87 sq mtrs in the name of	~ 20.00 Lacs		

Account/ Wallet in which EMD to be remitted: Bidder's own wallet Registered with M/s MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT. EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account maintained with M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT from his / her / their bank, For any assistance, please call MSTC HELPDESK Nos. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 and/or Authorized Officer (Contact Person).

(Symbolic Possession with the Bank)

Sh. Shailesh Anandani

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" and will be conducted "On Line". The auction will be conducted

- through the Bank's approved service provider MSTC E-Commerce at their web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
- 2. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer there is no encumbrance on the property/ies, However the intending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the property/ies put on auction and claims/rights/dues/affecting the property prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. 3. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest money Deposit shall not bear any Interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance of the sale price on or before 15th day of the sale. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of
- the whole money already deposited and property shall be put to the re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount. 4. For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link at the Bank's Service provider's web portal

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp & at Bank's portal https://www.sbi.co.in

OSBI

Date: 08-04-2023, Place: New Delhi

STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch, Retail 1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi - 110015, Ph.: 25419177,25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in

Authorized Officer, State Bank of India, SARB-II, Karol Bagh New Delhi (Branch Code 51521)

"APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below mentioned Immovable property/ies mortgaged/charged to the Secured Creditor (State Bank of India), the possession mentioned below of which has been taken by the Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis on below mentioned dates for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The reserve price is mentioned below and the earnest money to be

deposited a marine responsibility.							
	Name & Address of	(Symbolic / Physical Possession)	Reserve Price(RP)	Outstanding Dues	Name & Number of Contact Person	Date of E-Auction with unlimited extensions of 5 Minutes each	Date / Time of On - site Inspection of
S. No.	Borrower (B)		EMD Amount 10% of The Reserve Price	for recovery of which properties are being sold			
	/Guarantor/s (G) /		Incremental Amount				Property
	Bazar, Khaori Baoli, Delhi-110006 Smt Renu Singhal W/o Sh. Sanjay Singhal,	Equitable Mortgage of Property One Shop on the ground floor being MPL No-208 without roof /terrace right, having Area 9.81 Sq Mtr being part of built up property bearing MPL No 204-212, situated at Gali Siras Wali, Katra Peran, Phatak Habash Khan, Tilak Bazar, Khari Baoli, Delhi-110006. (Symbolic Possession)	₹ 6.60 Lacs ₹ 1.00 Lacs	Rs. 4,37,49,714/- as on 30.11.2022 plus future interest and charges	Mrs Vandana Singh Mobile No. 9818410374	28-04-2023 From 10.00 AM to 04:00 PM	13-04-2023 12.00 Noon to 03.00 PM

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER:

1. E-Auction is being held on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis and will be conducted through the Bank's E-Auction Tender Document containing online e-auction Bid form, Declaration, General Terms and Conditions of online auction sale are available in e-Auction platform on ibapi portal https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/

2. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent inquiries re-garding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims / rights / dues / affecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims / rights / dues.

3. Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute

The sale shall be subject to rules / conditions prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The other terms and conditions of the e-auction are published in the following websites https://ibapi.in Date : 08-04-2023, Place : New Delhi

Classifieds

PERSONAL

I,Mohit Bhola S/o-Vijay Kumar Bhola R/o 107-C, Jhuggi Block-EE, Jahangir Puri, Delhi-110033 have changed my name to Mohit Kumar Bhola 0040662761-1

सार्वजनिक सूचना मेरी मुविक्कला पुनम पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र

पति राजेन्द्र के मरणोपरांत पति श्री राजबी निवासी 91, रजापुर गाँव, सेक्टर-9 रोहिए दिल्ली-85 ने अपनी पुत्री तान्या (18वर्ष को उसके असामाजिक आचरण के का से बेदखल कर दिया है आज के बाद र मविक्कला का अपनी पत्री तान्या से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नही रहेगा।

V. S. Mahavara (Advocate HIGH COURT OF DELH ENROL. NO.D/211/200

Ghafoor and Haira Begum W/O Sh Javed Khan R/o House No. 789. Ne Raja Garden, Near Sarvodaya hospit Old Faridabad, Haryana, hav Igbal, his wife Nazia and his two son Irfan Khan and his wife Mohsina Khai and Arif Khan and his wife Vakila from a their movable and immovable properties, due to their misbehavi clients and have severed all their relations with them. My client shall no be responsible for any acts, deeds o dealing of them with anybody in future.

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies

Syed Sarfaraz Nawaz(Adv Enrol.No-P/2974/201

(Incorporation) Rules, 2014] **Axis Nirman and Industries Limited CIN:** U 24111 UP 1988 PLC 009412 Regd. Office: Plot No. 163 & 164 Mandhana Bithur Road, Mandhana-09217, Uttar Pradesh Email id: axisgroupdelhi@gmail.com Telephone: 0512-278086 Before the Central Government Through

Ministry of Corporate Affairs, New Delhi In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And in the matter of **Axis Nirman and Industries Limited**

the office of the Regional Director, Northern Region

having its Registered Office at Plot No. 163 & 164 Mandhana Bithur Road, Mandhana 209217, Uttar Pradesh

Applicant Compan PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that Axis Nirman and Industries Limited (the Company) proposes to make an Application to the Central Government through the office of the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, New Delhi under Section 13 of the Companies Act, 2013, read with Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, and other applicable provisions if any, seeking confirmation/approval of alteration of Clause II of its Memorandum of Association in terms of the Special Resolution passed in the Extra Ordinary General Meeting held on 8th April, 2023, to enable the Company to change its registered office from the State of Uttar Pradesh to the NCT of New Delhi. Any person whose interest is likely to be

office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing an Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry o Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deen Dayal Antodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003 (email: rd.north@mca.gov.in), within 14 days from the date of publication of this notice, with a copy to the Applicant Company at its Registered Office address mentioned above For Axis Nirman and Industries Limited

Rajesh Sharma

DIN: 00890666

Director

affected by the proposed change of registered

Date: 08.04.2023 Place : Delhi

B





financialexp.epap.in

Date: 08.04.2023

Place: New Delhi

DIN: 02656812

New Delhi

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, दांयी मख्य नहर खण्ड प्रथम, सी.ए.डी. चम्बल कोटा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में जल संसाधन/सी.ए.डी विभाग में पंजीकृत, अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.dipronline.org www.cadkota.rajasthan.gov.in तथा कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्ड पर कार्यालय समय में देखी जा सकती है। निविदा संख्या-14 वर्ष 2022-23 में प्रकाशित होने वाले कार्यों के यू. बी. एन. नम्बर

अधिशाषी अभियन्ता दाई मुख्य नहर खण्ड DIPR/C/5152/2023 प्रथम सीएडी कोटा

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारतीय ऋणषोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2017 का विनियम 14)

सिक्योरिटी कपास कसल्टिंग एड ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

0.		
क्र.	विस्तृत विवरण	विवरण
सं.		
	निगमित व्यक्ति का नाम	सिक्योरिटी कंपास कंसिल्टंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज
1 .	। नेपानसं व्यावसं का नान	
Ш		प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित व्यक्ति के निगमीकरण की तिथि	21 दिसंबर 2010
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार	कंपनी रजिस्ट्रार – दिल्ली
ll l	निगमीकृत / पंजीकृत है	,
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान	U72900DL2010FTC358109
	संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	
l -	निगमित व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा	दुकान सं. 216/9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
5.		
Ш	प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	110066
6.	निगमित व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभन तिथि	6 अप्रैल 2023
 7. 7. 	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, दूरभाष	नामः धनश्याम पटेल
ll l	संख्या और पंजीकरण संख्या	पता : 322, जेस्ट बिजनेस स्पेसेज, एमजी रोड,
ll l		घाटकोपर पूर्व, मुंबई ४०० ०७७
ll l		इंमेल : liq.scctspl@gmail.com/dpatel@ckpatel.com
ll l		दूरभाष : 022-25083300
8.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	6 मई 2023

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सिक्योरिटी कंपास कंसिल्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 6 अप्रैल 2023 को स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सिक्योरिटी कंपास कंसिल्टिंग एंड टेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हितग्राहियों को एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे 6 मई 2023 को अथवा इससे पूर्व परिसमापक के पास उपरोक्त मद सं. 7 के समक्ष वर्णित

वित्तीय ऋणदातागण दावों के अपने साक्ष्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य हितग्राहीगण दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप में डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं।

दिनांक : शनिवार, 8 अप्रैल 2023

स्थान : दिल्ली / राराक्षे

CAPITAL

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम **TATA** मार्ग, लोवर परेल, मुंबई—400013, सीआईएन नं: यू67190एमएच2008पीएलसी187552

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्न वर्णितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभूगतान उधारकर्ता निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को

विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सूचित जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन-देन निम्न संदर्भित एक राशि और

राशि पर नियम ब्याज तथा निम्नांकित तिथि से दांडिक ब्याज, शूल्कों, लागतों, इत्यादि हेतू टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता	दायित्वधारक(कों) / विधिक	मांग सूचना	अधिग्रहण
संख्या	उत्तराधिकारी(रियों) /	की राशि एवं तिथि	की तिथि
TCHHL035 100010007 2546	विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम श्रीमती रेणु ढाँढियाल (उधारकर्ता के रूप में) तथा श्री डेनिस उर्फ श्री डेनिस ढाँढियाल (सह—उधारकर्ता के रूप में)	रु. 24,09,446 / — (रुपये चौबीस लाख नौ हजार चार सौ छियालिस मात्र)	04-04-2023

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः तृतीय तल पर स्थित आवासीय बायीं ओर के दक्षिण पूर्वी छोर वाले फ्लैट के समस्त भाग तथा अंश, जो छत / टेरेस अधिकारों के साथ है, जिसका क्षेत्राधिमापन 72.5 वर्ग गज अर्थात् 60.62 वर्ग मीटर, संपत्ति सं. बी–51–ए तथा 50—बी में से, नीचे की उस भूमि के समानुपातिक अविभाजित, व्यक्तिगत और अविभाज्य स्वामित्वधारी अधिकारों के साथ जिसका अधिमापन 72.5 वर्ग गज अर्थात् 60.62 वर्ग मीटर है, जो अवस्तंभ तल पर स्थित एक दो पहिया पार्किंग के साथ, खसरा सं. 23 / 24 में से, जो **ग्राम डाबड़ी, दिल्ली राज्य, डाबड़ी** एक्सटेंशन के रूप में विदित कॉलोनी, नई दिल्ली—110045 में स्थित तथा विक्रय विलेख में संवर्णित **समस्त सामान्य सुख–सुविधाओं के साथ है। परिसीमायेंः** पूर्व– सड़क 20' चौड़ी, पश्चिम– अन्य संपत्ति / भूखंड सं. 51 का शेष भाग, उत्तर- उक्त संपत्ति का शेष भाग, दक्षिण- अन्य संपत्ति / भूखंड हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय- सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटीए जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय. अजमेर No. 2145/Acct. -10(CTVS)/JLN/Ajmer/2023 Dated: 25/03/23 ई-टेण्डर (UBN No. AGH2223GLOB00160) इस चिकित्सालय के CTVS DEPARTMENT हेतु Equipments/Machine कय हेतु ई- निविदा के

माध्यम से मूल निमार्ताओं, अधिकृत विक्रेताओं से ई प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इन्टरनेट साइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1	Litillated Cost	1.55 erore
2	Tender Fees	Rs. 1000/-
3	RISL Processing Fees	Rs 2000/-
4	EMD	EMD 2% of Bid value (Rs- 2.78 LACK-)
5	Document Download Start Date and Time	27.03.2023 From 10:00 AM to 27.04.2023 to 12.00 PM
6	Document Upload Start Date and Time	28.03.2023 From 10.00 AM to 27.04.2023. to 12.00 PM
7	Physical DD & Bid Security Declaration	27.04.2023 to 4:00 PM
	Submission date & time & Venue	Office Of Superintendent, Associated Group Of
		Hospital, Ajmer
8	Pre, Bid meeting	05.04.2023 at 1:00 pm at Room No. 88
9	Technical Bid Opening Date & Venue	28-04-2023 at 1-00 PM
		Office Of Superintendent, Associated Group Of
		Hospital, Ajmer

नेविदायें खोलने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी। अपूर्ण रू से भरी हुई निविदायें एवं सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं होगी । नोट:- किसी भी निविदा को निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा

सदस्य सचिव

राज. मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी DIPR/c/5073/2023 ज.ला.ने. चिकित्सालय, अजमेर

फार्म जी

		अभिरुचि की अभि	ज प्राईवेट लिमिटेड के लिये व्यक्ति के लिए आमंत्रण । दिवालिया मंडल (कॉर्पीरेट
		(ो दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)
			विनियमन ३६ए (१) के अंतर्गत}
		विनयमन, 2016 के वि	भानयमन <i>3</i> 6ए (1) क अंतगत}
		सं	बंधित विवरण
	1. व	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	फॉक्सडॉम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
	<u>2.</u> व	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	26.04.2019
	3. 0	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट	कंपनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
ı		प् रणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	•
		कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान ग्रंख्या/सीमित टायित्व पहचान संख्या	U72900DL2019PTC349201

को प्राप्त हुई का मानक उपलब्ध है। है तथा cirp.foxdomtech@gmail.com पर ईमेल द्वारा मांगी

होने की तिथि संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी 18.05.2023

4. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के 23.05.2023 लिये सुचना मेमोरैण्डम, मुल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मुल्यांकन मैट्रिक्स, सुचना प्रस्ताव आवेदक अस्थाई सुची में प्रत्येक संभावित प्रस्ताव मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का आवेदक (पीआरए) के लिये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में प्रस्ताव के लिये अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम साझा की

जाएगी तथा ऐसे प्रत्येक पीआरए के साथ साझा की जाएगी जिन्होंने गोपनीयता के वचन के निष्पादन पर अस्थाई सूची में उसको शामिल नहीं किये जाने के विरुद्ध प्रस्ताव कर्मी के निणर्य का प्रतिवाद किये हों। 7. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने आरपी के पते तथा ईमेल आईडी : cirp.foxdomtech@gmail.con

पर भौतिक तथा इलेक्ट्रानिक पद्धति में। स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास क्रेडीटरों की समिति द्वारा जितनी जल्दी स्वीकृति हो। प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि आईपी पंजीकरण सं. : आईबीबीआई/आईपीए-002/आईपी-

1201ए-1201सी, 12वां तल, अशोका इस्टेट, 24, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 shailendralaw@gmail.com जे-16, 2 रा तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 करने के लिये पता तथा ईमेल cirp.foxdomtech@gmail.com वेवरण जे-16, 2 रा तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-11001 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं से अथवा cirp.foxdomtech@gmail.com पर ईमेल द्वार

एन00471-2017-2018/11372

23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि स्थान : नई दिल्ली शैलेन्द्र सिंह दिनांक: 08.04.2023 आईपी पंजीकरण सं. : आईबीबीआई/आईपीए-002/आईपी-एन00471-2017-2018/11372 पंजीकृत पता : 1201ए-1201सी, 12वां तल, अशोक इस्टेट, 24, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

ई मेल आईडी: cirp.foxdomtech@gmail.com,shailendralaw@gmail.com

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालयः आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी-17, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.

शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यूनिट नंबर 710 ए, 7वीं मंजिल, कॉपोरेंट पार्क, बी-109, संजय प्लेस, आगरा- 282002 निकट जी.जी. नर्सिंग होम . एबीएचएफएल: प्राधिकृत अधिकारी श्री गिरिजेश मौर्य; संपर्क नंबर- 9811892607, श्री अमनदीप तनेजा संपर्क नंबर- 9711246064, गणेश तिवारी संपर्क नंबर- 8368425065, चिराग लोखंडे संपर्क नंबर- +91 9773758208 और श्री मनदीप लूथरा संपर्क नंबर- 9999009978, संकल्प संपर्क नंबर- 8600164979,

2. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसपी):- मैसर्स ग्लोब टेक इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड - श्री समीर चक्रवर्ती; संपर्क नंबर +91 9810029933, +91 1244470855, ईमेल आईडी- CARE@BestAuctionDeal.com

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियं

की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना। जैसा कि, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभृत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी)

की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से नीचे उल्लिखित बकायों तथा उस पर भावी ब्याज एवं लागत के लिए प्रतिभृत क्रेडिटर के ऋणों की वसूली हेतू जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया था। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदारों और सह–कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है कि आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकाये ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्ति की ई-नीलामी ''**जैसा है जहां है'' तथा ''जो है यही है''** आधार पर आयोजित की जाएगी

क्र. सं.	कर्जदारों तथा सह- कर्जदारों के नाम	सम्पत्तियों∕प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	ईएमडी की अन्तिम तिथि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि
	सुनील धर्मवीर सिंह, मेसर्स गंगा हैंडलूम एम्पोरियम, मनीषा सुखवीर सिंह	संपत्ति संख्या एफ-193/551/1-2 (पुराना नंबर एफ-193) का समस्त भाग, तीसरी मंजिल, क्षेत्रफल 350 वर्ग गज यानी प्लिथ या कवर्ड एरिया माप 292.63 वर्ग मीटर, छत के अधिकार के साथ, खसरा नंबर 59/4 में से गांव खुरेजी खास, ब्लॉक-एफ एक्सटेंशन की आबादी, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली, नई दिल्ली 110092 और सीमाएं: पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः 30 फीट चौड़ी सड़क	रु. 2,12,65,495.68/- (रुपये दो करोड़ बारह लाख पैंसठ हजार चार सौ पंचानवे और अड़सठ पैसे मात्र)	(रुपये एक करोड़ अट्ठासी लाख सात हजार सात सौ साठ मात्र)	रु. 18,80,776.00/- (रुपये अठारह लाख अस्सी हजार सात सौ छिहत्तर मात्र)	16.05.2023	15.05.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच	17.05.2023
2.	डॉली सेठी और अमित कुमार	पूरी दूसरी मंजिल का समस्त भाग (छत के अधिकार के बिना) फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति संख्या सी-115, पुराना प्लॉट नंबर सी-115 के हिस्से पर निर्मित, खसरा नंबर 17/8 (रेक्ट नंबर 17, किला नंबर 8) में से, क्षेत्रफल 48 वर्ग गज, गांव असालतपुर खादर के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी जीवन पार्क, सी- ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059, आम प्रवेश, मार्ग, सीढ़ी, लिफ्ट, सबमर्सिबल, खुले शाफ्ट क्षेत्र के सामान्य अधिकारों के साथ, बिल्डिंग के स्टिल्ट फ्लोर / एलजीए क्षेत्र में बाइक पार्किंग अधिकारों के साथ, और सीमाएं: पूर्वः प्लॉट सी-115 का हिस्सा, पश्चिमः रोड, उत्तरः गली 10 फीट, दक्षिणः प्लॉट नंबर सी-116	रु. 22,22,903.00/- (रुपये बाईस लाख बाईस हजार नौ सौ तीन मात्र)	रु. 18,60,169/- (रुपये अटारह लाख साट हजार एक सौ उनहत्तर मात्र)	रु. 1,86,016.88/- (रुपये एक लाख छियासी हजार सोलह और अट्ठासी पैसे मात्र)	28.04.2023	27.04.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच	29.04.2023
3.	नीतू कुमार, संजय और नीता इलेक्ट्रिकल्स	संपत्ति संख्या 48 में बिल्ट-अप तीसरी मंजिल (छत/टेरेस के अधिकारों के साथ सामने की ओर) का समस्त भाग, भूमि क्षेत्र 68 वर्ग गज, (यानी 56.9 वर्ग मीटर) कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग गज में से, खसरा नंबर 811 में से, ग्राम नवादा के राजस्व एस्टेट में स्थित, कॉलोनी ओम विहार फेज-II, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 में, भूतल पार्किंग क्षेत्र में एक कार पार्किंग की जगह के साथ, और सीमाएं: पूर्व : संपत्ति का हिस्सा, पश्चिमः गली 20 फीट चौड़ी, उत्तरः प्लॉट नंबर- 48-ए, दक्षिणः उक्त सम्पत्ति का बचा हुआ हिस्सा	(रुपये सत्ताईस लाख पंचानवे हजार सात सौ	रु. 17,97,768/- (रुपये सत्रह लाख सत्तानवे हजार सात सौ अड़सठ मात्र)	रु. 1,79,776.80/- (रुपये एक लाख उन्यासी हजार सात सौ छिहत्तर और अस्सी पैसे मात्र)	28.04.2023	27.04.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच	29.04.2023
4.	राम सिंह चौहान, सविता, चौहान सिक्योरिटी फोर्स सर्विसेज	प्लॉट नंबर 31 से युक्त संपत्ति का समस्त भाग, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर फ्रंट पार्ट लेफ्ट साइड, छत के अधिकार रहित, खसरा नंबर, 13/5, गांव मटियाला सेवक पार्क, ब्लॉक- ई, उत्तम नगर, दिल्ली, उत्तम नगर एसओ, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली, भारत-110059	रु. 12,73,426/- (रुपये बारह लाख तिहत्तर लाख चार सौ छब्बीस मात्र)	रु. 6,96,081/- (रुपये छह लाख छियानवे हजार इक्यासी मात्र)	रु. 69,608.14/- (रुपये उनहत्तर हजार छह सौ आठ और चौदह पैसे मात्र)	28.04.2023	27-04-2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच	
5.	संजय कुमार वर्मा और ओम प्रकाश वर्मा	प्लॉट नंबर 230 के हिस्से पर घर का समस्त भाग, माप लगभग 53.31 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 198,199, बिहारी पुरम, मौजा बाबरपुर, हिर पर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282001 और सीमाएं : पूर्वः प्लॉट नंबर 230 का अन्य भाग, पश्चिम : प्लॉट नं. 225, उत्तर, 15 फीट रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 229.		रु. 14,50,842/- (रुपये चौदह लाख पचास हजार आठ सौ बयालीस रुपये मात्र)	रु.1,45,084.16/- (रुपए एक लाख पैंतालीस हजार चौरासी और सोलह पैसे मात्र)	28.04.2023	27-04-2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. के बीच	29.04.2023

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-undersarfaesi-act या https://BestAuctionDeal.com देखें।

तिथि : 09.04.2023 स्थान : दिल्ली एवं आगरा अधिकृत प्राधिकारी, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

राहुल को चमकाने के लिए उठाया जा रहा है अडाणी मुद्दा: रिजीजू

जम्मू, ८ अप्रैल (भाषा)।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (गांधी) राजनीतिक रूप से विफल हो गए हैं और उन्होंने दावा किया कि राहुल के राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए अडाणी मुद्दा जानबूझकर उठाया जा रहा है।

रिजीजू ने कांग्रेस पर न्यायपालिका को कमजोर करने का भी आरोप लगाया और कहा कि यदि विपक्षी दल न्यायपालिका पर हमला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रिजीजू ने यहां जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इस पर (हिंडनबर्ग-अडाणी मुद्दे पर) कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही एक समिति का गठन कर चुका है और इस पर विचार कर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह सब राहुल गांधी के



रिजीज ने कहा कि यदि विपक्षी दल न्यायपालिका पर हमला करके संविधान की धञ्जिया उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।

राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे जानबूझकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है।

एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से विफल हो चुका है और वे विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके करियर को चमकाने के लिए इसे मुद्दा बना बना रहे हैं। रिजीजू डोगरी भाषा में भारत के संविधान के पहले संस्करण का विमोचन करने के लिए यहां आए थे। वर्ष चुप नहीं रहेंगे।

2019 के आपराधिक मानहानि के एक मामले में गांधी को दोषी ठहराने वाले सूरत के न्यायाधीश की जीभ काटने की कांग्रेस के एक नेता की कथित धमकी के बारे में पूछे जाने पर रिजीजू ने कहा कि कांग्रेस हताशा में है और न्यायपालिका पर हमले कर रही है, लेकिन सरकार चुप नहीं बैठेगी।

देश

गांधी को 'मोदी उपनाम' संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद पिछले महीने लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था। कानून मंत्री ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका को धमिकयां देना कांग्रेस की आदत है। वर्ष 1975 में आपातकाल लाग् होने से पहले भी इसके नेताओं ने न्यायपालिका पर हमला किया था और वे अपनी हताशा के कारण और हमले करेंगे। रिजीज ने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और अगर वे संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं तो हम

दक्षिण रेलवे चन्नई मंडल

ई-निविदा सूचना सं. वी/टीआरडी-ओटी/01/2023-24 मद तिथि: 05.04.2023 कार्य का नाम: टीवीसी मंडल- दो वर्षों के लिये अनार्कुल (ईआरएस) में 25 केवी ट्रेक्शन सब स्टेशन के पीएसआ रखरखाव कार्यों का आउटमोर्सिंग

पूर्णता अवधि: 2 वर्ष निविदा दस्तावेज मुल्य : रु.3540/-धरोहर राशि भुगतानः रु.72,500/-**ई-निविदा संचना सं**. वी/टीआरडी-ओटी/01/2023-24 मद कार्य का नामः दो वर्षों के लिये कझाकुटम (केजेडके) में 2

निविदा मुल्य : रु. 36,22,528.23

केवी टेक्शन सब स्टेशन के पीएसआई रखरखाव कार्यों व निविदा मूल्य : 21,94,040.89 पूर्णता अवधि : 2 वर्ष निविदा दस्तावेज मुल्य : रु. 3540/-

धरोहर राशि भुगतान : रु. 43,900/-निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: 4.5.2023 के 14.00 सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध होगा।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

शुद्धिपत्र

जनसाधारण का ध्यान, **एडीआई ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (निगमित देनदार)** के विषय में 07–04–2023 को समाचारपत्र में प्रकाशित प्रपत्र–बी सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 12) की ओर आकृष्ट किये जाने की आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें कि सार्वजनिक उद्घोषणा के क्रमांक 10 में परिसमापक के साथ पत्रव्यवहार की ईमेल आईडी गलत मुद्रित हो गयी है। पत्रव्यवहार की सही ईमेल आईडी (क्रमांक 10 पर) cirp.aapl@gmail.com हੈ।

अन्य विवरण तथा नियम एवं शर्ते अप्रभावित और अपरिवर्तित हैं।

संजय कुमार देवानी परिसमापक एडीआई ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में पंजी. सं: IBBI/IPA-001/IP-P00423/2017-18/10746 एएफए 02-01-2024 तक वैध

> अदभूत इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सीआईएनः L51503DL1985PLC020195 पंजीकृत कार्यालयः डीएससी 260 साउथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली ,दिल्ली -110017 फोनः +91-7048959386; ई-मेलः dhbhut.ind@rediffmail.com

> > वेबसाइटः www.adhbhutinfra.in

डाक मतपत्र की सूचना

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति मांग रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के 108 और धारा 110 के संदर्भ के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ समय—समय पर संशोधित ("नियम"),भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") व विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (एसएस–2) द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक, यथा संशोधित और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा सामान्य बैठक आयोजित करने / ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों वाया सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 2/2022 और 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 , और अन्य लागू कानून, नियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं (किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय के लिए फिर से लागू होने सहित) के अनुसार , कंपनी ने 08 अप्रैल, 2023 को अधिनियम की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र नोटिस का प्रेषण उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा पूरा कर लिया है, जिनके ई-मेल पते कट-ऑफ तारीख 31 मार्च

पंजीकृत हैं। डाक मतपत्र नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.adhbhutinfra.in पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ("सीडीएसएल"), ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी, www.evotingindia.com की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे उपरोक्त वेबसाइटों से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाक मतपत्र नोटिस में संदर्भित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य कंपनी के adhbhut.ind@rediffmail.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

2023 तक कंपनी / डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ

ई-वोटिंग के लिए निर्देश: एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को उक्त डाक मतपत्र नोटिस में प्रस्तावित संकल्प पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ए-वोटिंग") से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से होगा। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप मे सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। सदस्य नीचे दी गई अवधि के दौरान अपना वोट दे सकते हैं: ई-मतदान का प्रारंभः रविवार, ०९ अप्रैल, २०२३ को सुबह ०९:०० बजे (आईएसटी)।

ई-वोटिंग की समाप्तिः सोमवार, 08 मई, 2023 को शाम 05:00 बजे(आईएसटी) । उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। डाक मतपत्र नोटिस में डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराने वाले सदस्यों द्वारा ई–वोटिंग की विधि प्रदान किया गया है। इन विधियों से जो व्यक्ति यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे प्राप्त / उत्पन्न कर सकते हैं, यह जानकारी भी उक्त नोटिस में प्रदान किया गया है। कृपया ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने से पहले डाक मतपत्र नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों और सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, उसे ही ई-वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। सदस्य / लाभार्थी स्वामी के वोटिंग अधिकार (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) कट—ऑफ तिथि पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होंगे। कट—ऑफ तारीख के बाद सदस्य बनने वाले व्यक्ति को इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य हेतु लेना चाहिए। ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

क. वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, वे अपने फोलियो नंबर, ई-मेल पता और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति का विवरण रिजस्ट्रार और कंपनी के ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे, नई दिल्ली – 110062 फोनः 91–11–2996 1281–83 ई-मेलः beetal@beetalfinancial.com को देकर पंजीकृत/अद्यतन कर सकते हैं। ख. डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृ त/अद्यतन नहीं किया है, वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृ त/अपडेट कर सकते हैं, जहां वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं।

यदि संकल्प स्वीकृत हो जाता है, तो इसे ई–वोटिंग की अंतिम तिथि यानी 08 मई, 2023 को पारित किया गया माना जाएगा। ई—वोटिंग के परिणाम 11 मई, 2023 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और इसे कंपनी की वेबसाइट www.adhbhutinfra.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ट प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542 / 43 पर कॉल करें।

दिनांकः 08.04.2023

स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते अदभुत इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनुभव धाम (पूर्णकालिक निदेशक) डीआईएन : 02656812

चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांव का दौरा करेंगे अमित शाह रुपए के केंद्रीय घटक के साथ 'जीवंत गांव नई दिल्ली, 8 अप्रैल (एजंसी)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, जिस दौरान वह भारत-चीन सीमा से लगे एक गांव किबिथ में 'जीवंत गांव कार्यक्रम' की शुरुआत करेंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के वास्ते 2,500 करोड़ रुपए सहित 4,800 करोड़ कार्यक्रम' (वीवीपी) को मंजूरी दी है।

वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लाक में 2,967 गांव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है।

पहले चरण में, प्राथमिकता कवरेज के लिए आंध्र प्रदेश में 455 सहित 662 गांव की पहचान की

पवार जेपीसी के खिलाफ नहीं, कहा अडाणी मामला : सुप्रीम कोर्ट की समिति अधिक प्रभावी

मुंबई/नई दिल्ली, ८ अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को फिर कहा कि वह अडाणी समृह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय सिमित (जेपीसी) से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी।

वरिष्ठ सहयोगी पार्टी कांग्रेस से अलग रुख अपनाते हुए, पवार ने कहा कि उन्होंने अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की एक समिति का समर्थन किया। वह मुंबई में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

पवार ने शुक्रवार को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में अडाणी समृह का बचाव किया था और हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर कहा कि

नीतीश ने पवार के बयान का नहीं किया समर्थन पटना, ८ अप्रैल (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के विचार का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिन्होंने अडाणी समृह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की विपक्षी दलों की मांग पर विरोधाभासी रुख अपनाया था। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) संसद में जेपीसी की जांच की मांग का समर्थन करती रही है।

भारतीय कारोबारी समृह को निशाना बनाया गया है। पवार ने कहा कि एक विदेशी कंपनी भारत की स्थिति के बारे में अपना रुख बताती है। हमें तय करना चाहिए कि इस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए।

मोदी की तारीफ के बाद अजित पवार ने अब ईवीएम पर भरोसा जताया

पुणे, ८ अप्रैल (भाषा)।

अजित पवार ने शनिवार को कहा कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) विश्वसनीय है और कोई एक व्यक्ति इस मशीन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल अपने प्रदर्शन के लिए अक्सर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हें लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि चुनावी हार जनादेश होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

(राकांपा) के वरिष्ठ नेता ने ईवीएम को 'क्लीन चिट' देने से को बधाई दी गई है। कुछ दिन पहले 2014 के चुनावों में भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को श्रेय दिया था और कहा था कि देश में प्रधानमंत्री की अकादिमक डिग्री से ज्यादा महंगाई और युवाओं के लिए रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। व्यक्ति ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं अजित पवार ने पत्रकारों से

कहा, 'मैं ईवीएम पर भरोसा करता हूं। एक अकेला व्यक्ति ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यह बड़ी प्रणाली है और

इसमें कई स्तर होते हैं। हालांकि, चुनावों में हार का सामना करने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता वाली पार्टी वोटिंग मशीन को जिम्मेदार ठहराती है लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि चुनाव परिणाम जनादेश है।'

> गौरतलब है कि राकांपा नेता शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखपत्र 'सामना' के शनिवार संस्करण में प्रकाशित एक संपादकीय पर सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें दावा किया गया कि भाजपा ईवीएम को 'हैक' करके चुनाव जीतती है और इसमें ईवीएम हटाने के लिए बांग्लादेश के निर्वाचन निकाय पवार ने कहा, 'अगर

> ईवीएम में खामी होती तो विपक्षी दल छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों में सरकार नहीं बना पाते। भारत जैसे बड़े देश में एक अकेला कर सकता। अगर किसी तरह यह साबित हो जाता है कि वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की गई है तो देश में बडी अराजकता पैदा हो जाएगी।'

www.readwhere.com